



Jitesh kumar

24 Sep 2001

04:36 PM

Barabanki

Model: Web-MyKundli

Order No: 121756001

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 24/09/2001
दिन _____: सोमवार
जन्म समय _____: 16:36:00 घंटे
इष्ट _____: 26:43:22 घटी
स्थान _____: Barabanki
राज्य _____: Uttar Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 26:56:00 उत्तर
रेखांश _____: 81:11:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:05:16 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 16:30:44 घंटे
वेलान्तर _____: 00:07:55 घंटे
साम्पातिक काल _____: 16:44:09 घंटे
सूर्योदय _____: 05:54:39 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:59:33 घंटे
दिनमान _____: 12:04:54 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 07:35:36 कन्या
लग्न के अंश _____: 10:05:38 कुम्भ

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कुम्भ - शनि
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 3
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: सौभाग्य
करण _____: बव
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: भा-भारत
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: तुला

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1923	आश्विन	2
पंजाबी	संवत : 2058	आश्विन	9
बंगाली	सन् : 1408	आश्विन	8
तमिल	संवत : 2058	पुरुटासी	8
केरल	कोल्लम : 1177	कन्नी	8
नेपाली	संवत : 2058	आश्विन	9
चैत्रादि	संवत : 2058	आश्विन	शुक्ल 8
कार्तिकादि	संवत : 2058	आश्विन	शुक्ल 8

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 8
तिथि समाप्ति काल _____ : 27:41:02
जन्म तिथि _____ : 8
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मूल
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 26:17:28 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : आयुष्मान
योग समाप्ति काल _____ : 05:59:58 घंटे
जन्म योग _____ : सौभाग्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : विष्टि
करण समाप्ति काल _____ : 15:00:49 घंटे
जन्म करण _____ : बव
भयात _____ : 40:01:57
भभोग _____ : 64:15:36
भोग्य दशा काल _____ : केतु 2 वर्ष 7 मा 12 दि

घात चक्र


मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

		श	गु रा
ल			
			शु
के चं मं		बु	सू

लग्न कुंडली

	श		
रा गु			ल
शु		चं	मं के
	सू	बु	

विंशोत्तरी
केतु 2वर्ष 7मा 12दि
केतु

24/09/2001

08/05/2117

केतु	07/05/2004
शुक्र	07/05/2024
सूर्य	07/05/2030
चन्द्र	07/05/2040
मंगल	08/05/2047
राहु	07/05/2065
गुरु	07/05/2081
शनि	08/05/2100
बुध	08/05/2117

योगिनी

उल्का 2वर्ष 2मा 27दि
भामरी

22/12/2024

22/12/2028

भामरी	02/06/2025
भद्रिका	22/12/2025
उल्का	22/08/2026
सिद्धा	02/06/2027
संकटा	22/04/2028
मंगला	02/06/2028
पिंगला	22/08/2028
धान्या	22/12/2028


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न		कुंभ	10:05:38	478:23:04	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	गुरु	---
सूर्य		कन्या	07:35:36	00:58:46	उ०फाल्गुनी	4	12	बुध	सूर्य	केतु	सम राशि
चंद्र		धनु	08:20:57	12:24:13	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	सम राशि
मंगल		धनु	14:46:53	00:35:16	पूर्वाषाढा	1	20	गुरु	शुक्र	शुक्र	मित्र राशि
बुध		तुला	03:09:08	00:39:48	चित्रा	3	14	शुक्र	मंगल	शुक्र	मित्र राशि
गुरु		मिथु	19:24:53	00:06:59	आर्द्रा	4	6	बुध	राहु	मंगल	शत्रु राशि
शुक्र		सिंह	10:14:20	01:13:18	मघा	4	10	सूर्य	केतु	शनि	शत्रु राशि
शनि		वृष	21:05:14	00:00:17	रोहिणी	4	4	शुक्र	चंद्र	शुक्र	मित्र राशि
राहु		मिथु	08:01:34	00:00:00	आर्द्रा	1	6	बुध	राहु	राहु	उच्च राशि
केतु		धनु	08:01:34	00:00:00	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	उच्च राशि
हर्ष	व	मक	27:33:41	00:01:39	धनिष्ठा	2	23	शनि	मंगल	गुरु	---
नेप	व	मक	12:16:00	00:00:45	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	राहु	---
प्लूटो		वृश्चि	18:56:21	00:01:02	ज्येष्ठा	1	18	मंगल	बुध	केतु	---
दशम भाव		वृश्चि	18:37:20	--	ज्येष्ठा	--	18	मंगल	बुध	केतु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:52:35


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मकर 26:30:55	कुम्भ 10:05:38
2	कुम्भ 26:30:55	मीन 12:56:12
3	मीन 29:21:29	मेष 15:46:46
4	वृष 02:12:03	वृष 18:37:20
5	मिथुन 02:12:03	मिथुन 15:46:46
6	मिथुन 29:21:29	कर्क 12:56:12
7	कर्क 26:30:55	सिंह 10:05:38
8	सिंह 26:30:55	कन्या 12:56:12
9	कन्या 29:21:29	तुला 15:46:46
10	वृश्चिक 02:12:03	वृश्चिक 18:37:20
11	धनु 02:12:03	धनु 15:46:46
12	धनु 29:21:29	मकर 12:56:12


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कुम्भ	10:05:38
2	मीन	20:09:19
3	मेष	22:33:22
4	वृष	18:37:20
5	मिथुन	12:23:10
6	कर्क	07:53:32
7	सिंह	10:05:38
8	कन्या	20:09:19
9	तुला	22:33:22
10	वृश्चिक	18:37:20
11	धनु	12:23:10
12	मकर	07:53:32


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 2 वर्ष 7 मास 12 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
24/09/2001	07/05/2004	07/05/2024	07/05/2030	07/05/2040
07/05/2004	07/05/2024	07/05/2030	07/05/2040	08/05/2047
00/00/0000	शुक्र 06/09/2007	सूर्य 25/08/2024	चंद्र 08/03/2031	मंगल 03/10/2040
00/00/0000	सूर्य 06/09/2008	चंद्र 23/02/2025	मंगल 07/10/2031	राहु 22/10/2041
00/00/0000	चंद्र 07/05/2010	मंगल 01/07/2025	राहु 07/04/2033	गुरु 27/09/2042
00/00/0000	मंगल 08/07/2011	राहु 26/05/2026	गुरु 07/08/2034	शनि 06/11/2043
00/00/0000	राहु 07/07/2014	गुरु 14/03/2027	शनि 07/03/2036	बुध 03/11/2044
24/09/2001	गुरु 07/03/2017	शनि 24/02/2028	बुध 06/08/2037	केतु 01/04/2045
गुरु 01/04/2002	शनि 07/05/2020	बुध 30/12/2028	केतु 08/03/2038	शुक्र 01/06/2046
शनि 11/05/2003	बुध 08/03/2023	केतु 07/05/2029	शुक्र 06/11/2039	सूर्य 07/10/2046
बुध 07/05/2004	केतु 07/05/2024	शुक्र 07/05/2030	सूर्य 07/05/2040	चंद्र 08/05/2047

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
08/05/2047	07/05/2065	07/05/2081	08/05/2100	08/05/2117
07/05/2065	07/05/2081	08/05/2100	08/05/2117	00/00/0000
राहु 18/01/2050	गुरु 25/06/2067	शनि 10/05/2084	बुध 05/10/2102	केतु 04/10/2117
गुरु 12/06/2052	शनि 06/01/2070	बुध 18/01/2087	केतु 02/10/2103	शुक्र 04/12/2118
शनि 19/04/2055	बुध 13/04/2072	केतु 27/02/2088	शुक्र 02/08/2106	सूर्य 11/04/2119
बुध 06/11/2057	केतु 19/03/2073	शुक्र 29/04/2091	सूर्य 08/06/2107	चंद्र 10/11/2119
केतु 24/11/2058	शुक्र 18/11/2075	सूर्य 10/04/2092	चंद्र 07/11/2108	मंगल 07/04/2120
शुक्र 24/11/2061	सूर्य 06/09/2076	चंद्र 09/11/2093	मंगल 04/11/2109	राहु 26/04/2121
सूर्य 19/10/2062	चंद्र 06/01/2078	मंगल 19/12/2094	राहु 23/05/2112	गुरु 25/09/2121
चंद्र 19/04/2064	मंगल 13/12/2078	राहु 25/10/2097	गुरु 29/08/2114	00/00/0000
मंगल 07/05/2065	राहु 07/05/2081	गुरु 08/05/2100	शनि 08/05/2117	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 2 वर्ष 7 मा 20 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

सूर्य - राहु	सूर्य - गुरु	सूर्य - शनि	सूर्य - बुध	सूर्य - केतु
01/07/2025	26/05/2026	14/03/2027	24/02/2028	30/12/2028
26/05/2026	14/03/2027	24/02/2028	30/12/2028	07/05/2029
राहु 19/08/2025	गुरु 04/07/2026	शनि 08/05/2027	बुध 08/04/2028	केतु 07/01/2029
गुरु 02/10/2025	शनि 19/08/2026	बुध 26/06/2027	केतु 26/04/2028	शुक्र 28/01/2029
शनि 23/11/2025	बुध 29/09/2026	केतु 16/07/2027	शुक्र 17/06/2028	सूर्य 04/02/2029
बुध 09/01/2026	केतु 16/10/2026	शुक्र 12/09/2027	सूर्य 02/07/2028	चंद्र 14/02/2029
केतु 28/01/2026	शुक्र 04/12/2026	सूर्य 29/09/2027	चंद्र 28/07/2028	मंगल 22/02/2029
शुक्र 24/03/2026	सूर्य 19/12/2026	चंद्र 28/10/2027	मंगल 15/08/2028	राहु 13/03/2029
सूर्य 09/04/2026	चंद्र 12/01/2027	मंगल 18/11/2027	राहु 01/10/2028	गुरु 30/03/2029
चंद्र 07/05/2026	मंगल 29/01/2027	राहु 09/01/2028	गुरु 11/11/2028	शनि 19/04/2029
मंगल 26/05/2026	राहु 14/03/2027	गुरु 24/02/2028	शनि 30/12/2028	बुध 07/05/2029
सूर्य - शुक्र	चंद्र - चंद्र	चंद्र - मंगल	चंद्र - राहु	चंद्र - गुरु
07/05/2029	07/05/2030	08/03/2031	07/10/2031	07/04/2033
07/05/2030	08/03/2031	07/10/2031	07/04/2033	07/08/2034
शुक्र 07/07/2029	चंद्र 02/06/2030	मंगल 20/03/2031	राहु 28/12/2031	गुरु 11/06/2033
सूर्य 25/07/2029	मंगल 20/06/2030	राहु 21/04/2031	गुरु 10/03/2032	शनि 27/08/2033
चंद्र 25/08/2029	राहु 04/08/2030	गुरु 20/05/2031	शनि 05/06/2032	बुध 04/11/2033
मंगल 15/09/2029	गुरु 14/09/2030	शनि 22/06/2031	बुध 21/08/2032	केतु 02/12/2033
राहु 09/11/2029	शनि 01/11/2030	बुध 23/07/2031	केतु 22/09/2032	शुक्र 21/02/2034
गुरु 28/12/2029	बुध 14/12/2030	केतु 04/08/2031	शुक्र 23/12/2032	सूर्य 18/03/2034
शनि 23/02/2030	केतु 01/01/2031	शुक्र 08/09/2031	सूर्य 19/01/2033	चंद्र 27/04/2034
बुध 16/04/2030	शुक्र 21/02/2031	सूर्य 19/09/2031	चंद्र 06/03/2033	मंगल 26/05/2034
केतु 07/05/2030	सूर्य 08/03/2031	चंद्र 07/10/2031	मंगल 07/04/2033	राहु 07/08/2034
चंद्र - शनि	चंद्र - बुध	चंद्र - केतु	चंद्र - शुक्र	चंद्र - सूर्य
07/08/2034	07/03/2036	06/08/2037	08/03/2038	06/11/2039
07/03/2036	06/08/2037	08/03/2038	06/11/2039	07/05/2040
शनि 06/11/2034	बुध 19/05/2036	केतु 19/08/2037	शुक्र 17/06/2038	सूर्य 15/11/2039
बुध 27/01/2035	केतु 19/06/2036	शुक्र 23/09/2037	सूर्य 17/07/2038	चंद्र 01/12/2039
केतु 02/03/2035	शुक्र 13/09/2036	सूर्य 04/10/2037	चंद्र 06/09/2038	मंगल 11/12/2039
शुक्र 06/06/2035	सूर्य 09/10/2036	चंद्र 22/10/2037	मंगल 12/10/2038	राहु 08/01/2040
सूर्य 05/07/2035	चंद्र 21/11/2036	मंगल 03/11/2037	राहु 11/01/2039	गुरु 01/02/2040
चंद्र 22/08/2035	मंगल 21/12/2036	राहु 05/12/2037	गुरु 02/04/2039	शनि 01/03/2040
मंगल 25/09/2035	राहु 09/03/2037	गुरु 03/01/2038	शनि 08/07/2039	बुध 27/03/2040
राहु 21/12/2035	गुरु 17/05/2037	शनि 05/02/2038	बुध 02/10/2039	केतु 06/04/2040
गुरु 07/03/2036	शनि 06/08/2037	बुध 08/03/2038	केतु 06/11/2039	शुक्र 07/05/2040

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	6
भाग्यांक	9
मित्र अंक	3, 4, 6, 9
शत्रु अंक	1, 7, 8
शुभ वर्ष	24,33,42,51,60
शुभ दिन	शुक्र, शनि, मंगल
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, मंगल
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	वृष, तुला, धनु
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
गोमेद	राहु	88%	सन्तति सुख, भाग्योदय
हीरा	शुक्र	80%	दम्पति, सुख, भाग्योदय
नीलम	शनि	80%	सुख, कम खर्च, स्वास्थ्य
लहसुनिया	केतु	78%	धनार्जन, सन्तति सुख
पुखराज	गुरु	77%	सन्तति सुख, धनार्जन, धन
मूंगा	मंगल	73%	धनार्जन, पराक्रम, व्यावसायिक उन्नति
पन्ना	बुध	73%	भाग्योदय, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
मोती	चंद्र	9%	हानि, शत्रु व रोग
माणिक्य	सूर्य	6%	दुर्घटना, दाम्पत्य कष्ट



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	07/05/2004	0%	0%	80%	73%	77%	86%	67%	75%	91%
शुक्र	07/05/2024	0%	0%	73%	80%	77%	92%	86%	94%	84%
सूर्य	07/05/2030	31%	22%	80%	73%	83%	67%	67%	75%	66%
चंद्र	07/05/2040	19%	34%	73%	80%	77%	80%	80%	75%	66%
मंगल	08/05/2047	19%	22%	86%	61%	83%	80%	80%	75%	84%
राहु	07/05/2065	0%	0%	61%	73%	77%	86%	86%	100%	66%
गुरु	07/05/2081	19%	22%	80%	61%	89%	67%	80%	88%	78%
शनि	08/05/2100	0%	0%	61%	80%	77%	86%	92%	94%	66%
बुध	08/05/2117	19%	0%	73%	86%	77%	86%	80%	88%	78%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017	26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049	10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	05/02/2073-31/03/2073	23/10/2073-16/01/2076	11/07/2076-11/10/2076
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076	11/10/2076-15/01/2079	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	15/01/2079-12/04/2081	03/08/2081-07/01/2082	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	20/03/2084-21/05/2086	21/05/2086-08/02/2087	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

सम
सम
शुभ
सम
सम

क्षेत्र

शत्रु से कष्ट
व्यावसायिक परेशानी
धनार्जन
कम खर्च
धन

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल चन्द्रमा के साथ है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं परन्तु चन्द्र लग्न से मंगल का दोष अधिक नहीं माना जाता है अतः इसके प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी आप सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे परन्तु स्वभाव में किंचित उग्रता का भाव उत्पन्न रहेगा। साथ ही मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में किंचित मात्रा में विलम्ब भी हो सकता है तथा यदा कदा विवाह संबंधी वार्तालापों में व्यवधान आएंगे परन्तु अन्ततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक शान्ति भी बनी रहेगी।

चन्द्रमा के साथ मंगल की युति होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण जीवन में आप भौतिक सुख संसाधन तथा जायदाद आदि भी प्राप्त करेंगे यद्यपि इसमें आपको थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव से वे तेज हो सकती है परन्तु इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप परिश्रम एवं पराक्रम से अपने सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा व्यवधानों एवं समस्याओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करके उनका समाधान करेंगे।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय एवं अनुकूल बनाने के लिए आपको किसी उचित मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो जाय। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इस दोष के भंग होने पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा इच्छित भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी साथ ही चल एवं अचल सम्पत्ति के भी स्वामी बनेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं प्रसन्नता पूर्वक

व्यतीत होगा तथा धनऐश्वर्य से आप युक्त रहेंगे ।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में पद्म नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। इसके कारण जातक के विद्याध्ययन में थोड़ा बहुत व्यवधान उपस्थित होता है। परन्तु कालान्तर में वह व्यवधान समाप्त हो जाता है। सन्तान प्रायः विलम्ब से प्राप्त होती है या उसको होने में आंशिक रूप से व्यवधान उपस्थित होता है। पुत्र सन्तान की प्रायः चिन्ता बनी रहती है। जातक का स्वास्थ्य कभी असामान्य हो जाता है।

इस योग के कारण दाम्पत्य जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय हो जाता है। परिवार में जातक को अपयश मिलने का भय बना रहता है और जातक के मित्रगण स्वार्थी होते हैं और वे सब जातक का पतन कराने में सहायक होते हैं। कभी जातक को तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

इस योग के प्रभाव से जातक के गुप्त शत्रु रहते हैं। वे सब थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लाभ मार्ग में आंशिक बाधा उत्पन्न होती है एवं चिन्ता कष्ट के कारण जीवन संघर्षमय बना रहता है। जातक द्वारा संग्रहीत सम्पत्ति को प्रायः दूसरे लोग हरण कर लेते हैं। जातक को कभी रोग व्याधि भी घेर लेती है और रोग व्याधि में अधिक धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक संकट जातक के ऊपर उपस्थित हो जाता है तथा जातक वृद्धावस्था को लेकर चिन्तित रहता है एवं कभी-कभी जातक के मन में सन्यास ग्रहण करने की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जातक के जीवन में कई सफलता मिलती हैं।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।

12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में बुध के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

अष्टमभाव में सूर्य हो तो जातक धैर्यहीन, निबुद्धि, सुखी, धनी, क्रोधी, चिन्तायुक्त एवं पित्तरोगी होता है।

कन्या राशि में रवि हो तो जातक लेखन कुशल, दुर्बल, शक्तिहीन, मन्दाग्निरोगी, व्यर्थवकवादी, साहित्य और कविता में रुचि, भाषाविद् -बुद्धिमान, पत्रकार एवं गणितज्ञ होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से वे कष्टानुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा तथा जीवन में वे धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे एवं आपको समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे यदा कदा आप उनसे विशेष धन या सम्पत्ति भी अर्जित कर सकेंगे। साथ ही यात्रा एवं व्यापार संबंधी कार्यों में भी आपको सहयोग एवं निर्देश प्रदान करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रहेगा एवं समय समय पर उनकी आज्ञा का आप पालन करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों से इसमें कटुता या तनाव का वातावरण भी होगा परन्तु यह अल्प समय के लिए होगा। इसके साथ ही जीवन में आप सर्वप्रकार से पिता को सहयोग देंगे एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक गुणी, चंचलबुद्धि, सन्तति और सम्पत्ति से युक्त, सुखी, यशस्वी, लोकप्रिय, दीर्घायु, मन्त्रज्ञ, परदेशप्रिय एवं राज्यकार्यदक्ष होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति एकादश भाव में है। अतः माता के आप सदैव प्रिय रहेंगे एवं आपके प्रति उनके मन में पूर्ण वात्सल्य तथा स्नेह का भाव विद्यमान रहेंगे। जीवन में आपकी उन्नति एवं समृद्धि के लिए सदैव आपको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करती रहेंगी। साथ ही उन्हीं के सहयोग से आप अपने आय साधनों की वृद्धि करने में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार जीवन के समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही मातृपक्ष से भी आपको नित्य धन लाभ होता रहेगा।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा का भाव रहेगा तथा उनकी आज्ञा पालन करना एवं उनकी सेवा करना आप अपना प्रिय कर्तव्य समझेंगे। आपके परस्पर संबंध अत्यन्त ही स्नेहपूर्ण रहेंगे एवं उनमें मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। इस प्रकार आप परस्पर एक

दूसरे के लिए शुभ रहेंगे।

मंगल

ग्यारवें भाव में मंगल हो तो जातक धैर्यवान्, न्यायवान्, प्रवासी, साहसी, लाभ करने वाला, क्रोधी, झगड़ालू, दम्भी एवं कटुभाषी होता है।

धनु राशि में मंगल हो तो जातक चतुर राजनैतिक नेता, कम सन्तान, लोकप्रिय प्रसिद्ध, उच्चप्रशासकीय पद प्राप्त करने वाला, कठोर, शठ, क्रूर, परिश्रमी एवं पराधीन होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति एकादश भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की वे अनुभूति करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह तथा सम्मान का भाव रहेगा एवं धन सम्पत्ति से भी वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में अवसरानुकूल आपको अपना वांछित सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप आय के साधनों की वृद्धि करने में भी उनसे सहायता अर्जित करेंगे। आप को सुख दुःख में उनसे पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा वे आप पर विश्वास करेंगे।

आप भी हृदय से उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे तथा समयानुसार उनको आधिक तथा अन्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ ही उनकी आय की वृद्धि में भी आप वांछित सहयोग देंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर ही रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण उनमें तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु यह स्थाई रहेगी एवं कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।

बुध

नवमभाव में बुध हो तो जातक विद्वान् लेखक, ज्योतिषी, धर्मभीरु, व्यवसाय प्रिय, भाग्यवान्, सम्पादक, गवैया, कवि एवं सदाचारी होता है।

तुला राशि में बुध हो तो जातक आस्तिक, व्यापार दक्ष, वक्ता, चतुर, शिल्पज्ञ, कुटुम्बवत्सल, उदार, अच्छा अन्तर्ज्ञान, वफादार, विनीत संतुलित मन एवं दार्शनिक होता है।

गुरु

पंचमभाव में गुरु हो तो जातक नीतिविशारद, सन्ततिवान्, सट्टे से धन प्राप्त करने वाला, कुलश्रेष्ठ, लोकप्रिय, कुटुम्ब में सबसे ऊँचा स्थान, ज्योतिषी एवं आस्तिक होता है।

मिथुन राशि में गुरु हो तो जातक योग्य वक्ता, सुगठित शरीर, लम्बाकद, उदार, विद्वान्, कई भाषाओं का जानने वाला, अनायास धनप्राप्त करने वाला, लोकमान्य, लेखक एवं व्यवहार कुशल होता है।

शुक्र

सप्तमभाव में शुक्र हो तो जातक लोकप्रिय, धनिक, चिन्तित, विवाह के बाद भाग्योदय, साधुप्रेमी, स्त्री से सुख, कामी, भाग्यवान् गानप्रिय, विलासी, अल्पव्यभिचारी चंचल एवं उदार होता है।

सिंह राशि में शुक्र हो तो जातक, अल्पसुखी उपकारी, चिन्तातुर, शिल्पज्ञ, स्त्रियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला, कामुक, आवेशपूर्ण एवं अपने को दूसरों से ऊँचा समझने वाला होता है।

शनि

चतुर्थभाव में शनि हो तो जातक अपयशी, बलहीन, धूर्त, कपटी, शीघ्रकोपी, कृशदेही, उदासीन, वातपित्तयुक्त एवं भाग्यवान् होता है।

वृष राशि में शनि हो तो जातक असत्य भाषी, द्रव्यहीन, मूर्ख, वचनहीन, सफल, एकान्तप्रिय, छोटी-छोटी बातों के कारण चिन्तित एवं संयमी होता है।

राहु

पंचम भाव में राहु हो तो जातक शास्त्रप्रिय, कार्यकर्ता, भाग्यवान्, उदररोगी, मतिमन्द, कुल धननाशक, धनहीन, नीतिदक्ष एवं सन्तान के लिए अशुभ होता है।

मिथुन राशि में राहु हो तो जातक- साहसी, दीर्घायु, साधु गाने वाला, योगाभ्यासी एवं बलवान् होता है।

केतु

ग्यारहवें भाव में केतु हो तो जातक बुद्धिहीन, निजका हानिकर्ता, अरिष्टनाशक एवं वातरोगी होता है।

धनु राशि में केतु हो तो जातक चंचल, धूर्त एवं मिथ्यावादी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- सूर्य
(07/05/2024 - 07/05/2030)

सूर्य की महादशा 07/05/2024 को आरम्भ होगी और 6 वर्ष की होकर 07/05/2030 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य अष्टम भाव में अवस्थित है। सूर्य स्वास्थ्य, पिता, राजकीय कृपा, साहस तथा क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है जबकि अष्टम भाव अप्रत्याशित लाभ, छुपी प्रतिभा, आध्यात्मिक लक्ष्य तथा लाभ का सूचक है। अतः इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साझेदारों से लाभ तथा पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति हागी।

स्वास्थ्य :

आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपको आपके मार्ग में आनेवाली सभी समस्याओं का सामना करने की शक्ति तथा उत्साह प्राप्त होगा। आप में प्रतिरोध की क्षमता प्रबल है। कभी-कभी आप सरदर्द, लू, प्रदाह आदि से पीड़ित हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं से बचाव के लिये आपको सन्तुलित आहार लेना चाहिए। सभी अतिशयताओं का परित्याग करें।

अर्थ :

आप भाग्यशाली हैं ओर आपके साधन पर्याप्त हैं। फिजूल खर्ची से बचें अन्यथा आपका बैंक बैलेंस प्रभावित हो सकता है। आपको पैतृक अथवा अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। सट्टेबाजी और निवेश का परित्याग करें। आपको सेवा-अवकाश से लाभ, बोनस तथा ग्रेच्युइटी की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेगी।

व्यवसाय :

आपको सफलता, यश ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी। सूर्य की अष्टम भाव में स्थिति के कारण कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, किन्तु वे लाभदायक सिद्ध होंगे। आप किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन होंगे क्योंकि आपमें प्रशासकीय क्षमता विद्यमान है। आप संस्थाओं, निगमों और अन्य संगठनों के प्रबन्धक पद के लिये अति उपयुक्त हैं। आप सैन्य अथवा राजनीतिक सेवा, प्रशासकीय कार्य, तकनीकी-वैज्ञानिक सेवाओं का चयन अपनी जीवन वृत्ति के लिये कर सकते हैं। पेशेवर खेल भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सेवारत व्यक्तियों को सफलता, आमदनी, यश तथा ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों को सभी कार्यों में सफलता तथा लाभ की प्राप्ति होगी जबकि व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा।

परिवार :

बच्चों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपको अपने विकल्पों के प्रति हठधर्मी नहीं होना चाहिए और अपने विचार दूसरों पर आरोपित नहीं करने चाहिए। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपके जीवन साथी को आर्थिक लाभ मिलेंगे और उनके साथ आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आप कैसा व्यवहार करें यह आप पर निर्भर करता है। आपकी माता को सट्टे तथा निवेश से लाभ होगा और बच्चों से सुख मिलेगा। आपके पिता

की आध्यात्मिक कार्यों में रुचि हो सकती है। आपके छोटे भाई-बहनों को उनके प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय मिलेगी, और मातृ-पक्ष से लाभ मिलेगा जबकि बड़े भाई-बहनों को जीवन-वृत्ति में सफलता मिलेगी। आप स्वभाव से उदार तथा स्वामिभक्त हैं अतः आपके मित्रों की संख्या बड़ी होगी।

शिक्षा :

आप धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है।



अंतर्दशा :- सूर्य - राहु
(01/07/2025 - 26/05/2026)

आपके लिए सूर्य की महादशा 07/05/2024 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 01/07/2025 को प्रारंभ होकर 26/05/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

इस अवधि में आपको धन की प्राप्ति होगी। सब सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। खेलकूद और मनोरंजन में रुचि रहेगी। धनी बनेंगे। बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मित्रता होगी; समाज में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में उत्थान के अवसर आएंगे। आपके पिता के भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। छोटे-भाई-बहनों को धन लाभ होगा। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। वे उत्साह से परिपूर्ण होंगे।

आपके जीवनसाथी को धनलाभ होगा। उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपकी संतान का स्वास्थ्य उत्तम होगा, शिक्षा संतोषजनक रहेगी। आपके यहां संतान का जन्म हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। व्यापारी अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे। परामर्शदाताओं को अप्रत्याशित लाभ होगा।

हृदय और उदर के रोगों से बचें। अरिष्ट से बचाव के लिए भैरवजी के रूप में शिव जी की पूजा करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु
(26/05/2026 - 14/03/2027)

आपके लिए सूर्य की महादशा 07/05/2024 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 26/05/2026 को प्रारंभ होकर 14/03/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अवधि में आपको संतान से सुख मिलेगा। जीवन के सब सुख प्राप्त होंगे। समाज में सफलता मिलेगी और मनोरंजन के लिए समय बिताने से सुख मिलेगा। मंत्रसिद्धि में रुचि हो सकती है। आप परामर्शदाता के तौर पर कार्य कर सकते हैं। आपको विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त हो सकता है। लंबी यात्राएं हो सकती हैं। भाग्य साथ देगा, दर्शनशास्त्र और अन्य संबंधित विषयों में रुचि रहेगी। समृद्धि बढ़ेगी।

जीवनसाथी या व्यापार में साझेदार की आय बढ़ेगी। आपके पिता को धन और सुविधाएं प्राप्त होंगी। माता को धनलाभ और पारिवारिक प्रसन्नता प्राप्त होंगे। भाई-बहनों को वाक्शक्ति, कला, लघु यात्राओं से लाभ होगा; उनकी किसी से भागीदारी हो सकती है। आपकी संतान शिक्षा में उन्नति करेगी; उन्हें धनलाभ होगा, प्रसन्न रहेंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो खर्चें बढ़ सकते हैं। लाभकारी तबादला हो सकता है और सेवानिवृत्ति से धन मिल सकता है। परामर्शदाताओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है,

धनलाभ होगा। व्यापारी भविष्य के लिए अचल संपत्ति का निर्माण करेंगे।

पाचनतंत्र का ध्यान रखें, जिगर के रोगों ओर सुस्ती से बचें। दुखों से बचने के लिए विष्णु भगवान की आराधना करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - शनि
(14/03/2027 - 24/02/2028)

आपकी सूर्य की महादशा जारी है। इसमें छठी अंतर्दशा शनि की है जिसकी अवधि 11 मास 12 दिन है। आपके लिए यह 14/03/2027 को प्रारंभ होगी और 24/02/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। माता-पिता से लाभ और सम्मान प्राप्त होंगे। जमीन-जायदाद से युक्त रहेंगे। सरकार से सहयोग मिलेगा। रोगनिरोधक क्षमता उत्तम होगी। शत्रुओं पर विजय होगी। मामा या ममेरे भाइयों से लाभ होगा। उत्तम स्वास्थ्य, उच्चपद और लोकप्रियता के योग हैं।

आपके जीवनसाथी को लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में प्रगति करेंगे। आपको ससुराल से लाभ होगा। माता की आर्थिक स्थिति उत्तम होगी और वे अचल संपत्ति क्रय कर सकती हैं। भाई-बहनों के लिए उच्चपद और रोगनिरोधक क्षमता का संकेत है। आपकी संतान को परीक्षा में उत्तम अंक लाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। इस मामले में उनसे आपका विवाद हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो कठोर परिश्रम और धन का योग है। परामर्शदाता सफलता और धन अर्जित करेंगे। व्यापारीगण उत्साह से भरपूर रहेंगे, लाभ कमाएंगे।

अंतर्दशा :- सूर्य - बुध
(24/02/2028 - 30/12/2028)

आपकी सूर्य की महादशा 07/05/2024 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। यह 24/02/2028 को प्रारंभ होकर 30/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणी का कारक है।

इस अवधि में आपको अचानक किसी यात्रा के लिए निमंत्रण मिल सकता है। आपकी रुचि अध्यात्म और ज्ञान/विज्ञान में हो सकती है। लेखन, प्रकाशन और तीर्थयात्रा के लिए समय शुभ है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। मानसिक शक्ति प्रबल रहेगी और अध्यापन आदि में सफल रहेंगे। सौभाग्य और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। अध्यात्म में सफलता मिल सकती है।

आपके जीवनसाथी या व्यापार में साझेदार को वाक्विद्या से लाभ होगा और भाइयों से सुख मिलेगा। पिता का मन अध्यात्म में लगेगा। माता को मातहतों से लाभ प्राप्त होगा। उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शत्रुओं पर विजय होगी। भाई-बहनों का विवाह हो सकता है, किसी

से साझेदारी हो सकती है और धन कमा सकते हैं। आपकी संतान का ज्ञान बढ़ सकता है, साहित्य वाणिज्य, लेखा-जोखा आदि में चमक सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो धन में वृद्धि होगी, उच्चाधिकारियों से लाभ होगा। परामर्शदाताओं के खर्च और यात्राएं बढ़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए सुखद परिवर्तन आएंगे।

जांघों के आसपास के अंगों की व्याधियों से बचें। स्नायुतंत्र कमजोर हो सकता है। कष्टों से बचने के लिए दुर्गाजी की उपासना करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - केतु (30/12/2028 - 07/05/2029)

आपके लिए सूर्य की महादशा 07/05/2024 को प्रारंभ हुई थी। इसमें आठवीं अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 30/12/2028 को आरंभ होकर 07/05/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु संन्यास, मंत्रज्ञान ओर कष्टों का कारक है।

इस अवधि में आपका समय उत्तम रहेगा। सफलता, प्रोन्नति, भूमि क्रय, उच्चाधिकारियों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होंगे। बहुमुखी व्यापार में सक्रिय होकर खूब धन कमा सकते हैं। सरकार और जनता से सम्मानित होंगे। मित्रों से सावधान रहें क्योंकि वे बहका सकते हैं। तंत्र-मंत्र में रुचि की संभावना है। जोखिम उठाने से बचें। संतान के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। सामान्य स्थान और धर्मस्थल की यात्रा का संकेत है।

जीवनसाथी को निवेश, शोध और तकनीकी क्षेत्र से लाभ होगा। पिता को सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। माता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

आपके भाई-बहन भाग्यशाली रहेंगे। आपकी संतान के सम्मान में वृद्धि होगी ; यात्राएं होंगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यस्थल का वातावरण उत्तम होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारी संपन्न बनेंगे।

बायें कान, उदर और पैर के रोगों से बचाव करें। शनिवार और मंगलवार को उपवास रखें और शाम को हनुमानजी की पूजा करें। नमक न खायें।

अंतर्दशा :- सूर्य - शुक्र (07/05/2029 - 07/05/2030)

सूर्य महादशा में शुक्र अंतर्दशा होगी।

इस अवधि में शुक्र के कारण आपका दांपत्य जीवन सुखी रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। व्यापार के साझेदार और जीवनसाथी के माध्यम से धनार्जन होगा। विवाह, अनुबंध और व्यापार से लाभ होगा। समाज में संपर्क उत्तम रहेंगे।

**महादशा :- चन्द्र
(07/05/2030 - 07/05/2040)**

चन्द्र की महादशा की अवधि दस वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह 07/05/2030 को आरंभ और 07/05/2040 को समाप्त होगी।

चन्द्र एकादश भाव में स्थित है और इसे प्रबल कर रहा है। अतः इस दशा काल में आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय, शान्तिपूर्ण तथा समृद्धिशाली रहेगा। चन्द्र के कारण आपकी चहुमुखी प्रगति होगी क्योंकि एकादश भाव समाज, प्रियपात्र, आकांक्षाओं, मनोकामनाओं ओर उनकी पूर्ति, कार्यों में सफलता, आय, समृद्धि और भाग्योदय का प्रतीक है।

स्वास्थ्य :

दशा स्वामि चन्द्र के कारण इस अवधि में आपका जीवन सुखमय, और उत्तम रहेगा। इस दशा में किसी बड़े रोग या दुर्घटना की संभावना नहीं है और आपका जीवन सुखमय व स्वस्थ होगा और आप अपने कार्यों का सम्पादन सामान्य ढंग से अच्छी तरह करेंगे।

अर्थ और सम्पत्ति :

चन्द्र दशा की अवधि में आप लाभ अर्जित करेंगे जिससे आपका सम्पत्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी। सम्पत्तियों और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।

व्यवसाय :

व्यावसायिक दृष्टि से भी यह दशा आपके लिए उत्तम रहेगी। आपको अनेक लाभ के संकेत हैं जो इस बात के सूचक हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। यदि आप सेवारत हैं तो पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके व्यवसाय का विस्तार होगा जिससे अपने क्षेत्र व सामाजिक जीवन में और मित्रों के बीच लोकप्रिय होंगे।

पारिवारिक जीवन :

दशा आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी उत्तम है। आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपको पत्नी, घर, बच्चों तथा सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा और भाइयों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से परिवार को लाभ होगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप अपना अध्ययन जारी रखते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी।



**अंतर्दशा :- चन्द्र - चन्द्र
(07/05/2030 - 08/03/2031)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष रहेगी। आपके लिए यह 07/05/2030 को प्रारंभ होकर 07/05/2040 को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र की अंतर्दशा की अवधि 10 मास रहेगी। आपके लिए यह 07/05/2030 को प्रारंभ होकर 08/03/2031 को समाप्त होगी।

चंद्रमा आपकी जन्मपत्रिका में एकादश भाव में स्थित है, जहां से पंचम भाव पर उसकी दृष्टि है। एकादश भाव मित्रगण, समाज, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं और उनकी पूर्ति, उद्यम में सफलता, धनलाभ, बड़े भाई, भाग्योदय और टखनों का परिचायक है। यह आय का भाव माना जाता है।

इस अवधि में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। दान, धर्म और समाज सेवा में आपकी रुचि रहेगी। आपका सम्मान होगा। जीवन को आनंदमय बनाने वाले सुखसाधन आपको प्राप्त होंगे। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी; धन संचय भी होगा। साख्र बढ़ने से आप में नम्रता की वृद्धि होगी।

शुभत्व में वृद्धि और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के वैदिक मंत्र के 11000 जाप करें। चन्द्रोदय के समय चंद्र मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें।